



# राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

## हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

---

शिमला, सोमवार 28 मई, 2012/7 ज्येष्ठ, 1934

---

हिमाचल प्रदेश सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग  
जीएडी-ख-अनुभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 26 मई, 2012

संख्या: जीएडी-बी (ए)1-2/2003 (सिरमौर).-हिमाचल प्रदेश सरकार ने अधिसूचना संख्या: जीएबी-1ए(1)29/85 तारीख 12-01-1990 द्वारा जिला सिरमौर में उप तहसील पझौता, जिसका मुख्यालय सनौरा में होगा, को सृजित करने के आदेश किए थे ;

और हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या: जीएबी-1ए(1)4/89 तारीख 5-4-1990 द्वारा लोक सभा चुनावों की अधिसूचना के जारी होने के पश्चात् नई सृजित प्रशासनिक इकाईयों के कार्यान्वयन पर रोक लगा दी थी, जिसमें जिला सिरमौर में नई सृजित उप-तहसील पझौता भी सम्मिलित थी ।

और स्थानीय लोगों की नई सृजित उप तहसील के मुख्यालय की अवस्थिति से सम्बन्धित विरोधाभासी मांग के कारण तदोपरान्त उपरोक्त उप तहसील को क्रियाशील नहीं किया जा सका और इस रूप में अधिरोपित रोक जारी रही उपरोक्त स्थिति की पृष्ठभूमि के दृष्टिगत सम्पूर्ण मामले पर सरकार द्वारा पुनर्विचार किया गया और तदनुसार हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, द्वारा हिमाचल प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम 1968 की धारा 20 के साथ पठित हिमाचल हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिला सिरमौर में उप तहसील पञ्चौता के सृजन से सम्बन्धित जारी अधिसूचना संख्या: जीएबी-1ए(1)29/85 तारीख 12.1.1990 को प्रत्याहृत/विखण्डित करती हैं।

आदेश द्वारा,  
सुदृप्त राय,  
मुख्य सचिव।

*[Authoritative English text of the Himachal Pradesh Government Notification No. GAD-B(A)1-2/2003 (Sirmour) Dated 26-5-2012 as required under Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].*

## GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT

### GAD-B-Section

### NOTIFICATION

Shimla-2, the 26th May 2012

**GAD-B(A)1-2/2003 (Sirmour).**—Whereas, the Government of Himachal Pradesh vide notification No. GAB-1A (1)29/85 dated: 12-1-1990 had ordered creation of a Sub Tehsil Pajhauta with headquarter at Sanaura in District Sirmour.

And whereas Government of Himachal Pradesh vide letter No.: GAB-1A(1)4/89 dated: 5-4-1990 stayed the operationalization of the newly created administrative units after the issue of notification of Lok Sabha Elections, which included newly created sub tehsil Pajhauta in Distt. Sirmour.

And whereas the above Sub-Tehsil could not be made functional thereafter on account of conflicting demands of the local people regarding location of the headquarter of the newly created sub-thesil and imposed stay continued as such.

In the background of the above situation, the entire matter was reviewed by the Government and accordingly the Governor of Himachal Pradesh in exercise of powers conferred by Section 6 of the Himachal Pradesh Land Revenue Act, 1954 read with Section 20 of the Himachal Pradesh General Clauses Act, 1968 is pleased to withdraw / rescind the Notification No. GAB-1A (1)29/85 dated 12-1-1990 issued regarding creation of Sub-Tehsil Pajhota in District Sirmour.

By order,  
**Sudripta Roy,**  
Chief Secretary.

संख्या: का०(नि-IV)-ए(3)-3/84-II तारीख शिमला-171002,

28 मई, 2012

**अधिसूचना**

हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना तारीख 16.11.2010 तथा 31.05.2011 द्वारा अधिसूचित और राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण) में क्रमशः तारीख 22.11.2010 तथा 02.06.2011, को प्रकाशित दी हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस (द्वितीय संशोधन) रूज़, 2010 तथा हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस (द्वितीय संशोधन) रूज़, 2011, में संशोधन करते हुए इस विभाग की अधिसूचना संख्या 7-5/73-डी० पी० नियुक्ति, तारीख 15.03.1973 द्वारा अधिसूचित और राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण) में तारीख 11.05.1973 को प्रकाशित दी हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस रूज़, 1973 का और संशोधन करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात:-

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ ।	1. (1)	इन नियमों का संक्षिप्त नाम दी हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस (प्रथम संशोधन) रूज़, 2012 है।
	(2)	हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस (द्वितीय संशोधन) रूज़, 2010 तथा हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस (द्वितीय संशोधन) रूज़, 2011 के नियम 1 के उप नियम (2) में विद्यमान उपबन्ध के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात:-  “(2) ये नियम प्रथम जनवरी 2014, से प्रवृत्त होंगे” ।

आदेश द्वारा,  
सुदृप्त राय,  
मुख्य सचिव ।

*[Authoritative English Text of this Department Notification No. Per(A-IV)-A(3)-3/84-II dated 28-05-2012, as required under Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].*

**PERSONNEL DEPARTMENT**  
Appointment-IV

**NOTIFICATION**

*Shimla-171002, the 28th May, 2012*

**No.Per(A-IV)-A(3)-3/84-II.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the

Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Administrative Service Rules, 1973, notified vide this Department's Notification No. 7-5/73-DP-Apptt. Dated 15.03.1973 and published in the Rajpatra (Extra Ordinary) dated 11.05.1973, by making amendments in the Himachal Pradesh Administrative Service (Second Amendment), Rules, 2010 and Himachal Pradesh Administrative Service (Second Amendment), Rules, 2011, notified vide this Department's Notifications of even number dated 16th November, 2010 and 31st May, 2011 and published in Rajpatra (Extra Ordinary) dated 22nd November, 2010 and 2nd June, 2011, respectively namely:-

**1. Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Administrative Service (First Amendment), Rules, 2012.

(2) For the existing provision of sub-rule (2) of Rule 1 of Himachal Pradesh Administrative Service (Second Amendment), Rules, 2010 and Himachal Pradesh Administrative Service (Second Amendment), Rules, 2011, the following shall be substituted, namely:-

“(2) These rules shall come into force with effect from 1st January, 2014”

By order,  
**Sudripta Roy,**  
Chief Secretary.

कार्मिक विभाग (नियुक्ति-IV)

संख्या: का०(ए-IV)-ए(3)-3/84-II तारीख शिमला-171002,

28 मई, 2012.

### अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, इस विभाग की अधिसूचना संख्या 7-5/73-डी० पी० नियुक्ति, तारीख 15.03.1973 द्वारा अधिसूचित और राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण) में तारीख 11.05.1973 को प्रकाशित हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस रूलज़, 1973 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात:-

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ ।	1. (1)	इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस (द्वितीय संशोधन) रूलज़, 2012 है।
	(2)	ये नियम राजपत्र हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किये जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।
नियम 11 के उप नियम (3) में संशोधन ।	2.	हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस रूलज़, 1973, के नियम 11 के उप नियम (3) में "A Government servant who is holding substantive/ officiating" शब्दों के पश्चात् किन्तु "appointment in H.P. Government..." शब्दों से पूर्व "/contractual" चिन्ह और शब्द अंतःस्थापित किये जायेंगे !

आदेश द्वारा,  
**सुदृप्त राय,**  
मुख्य सचिव।

*[Authoritative English Text of this Department Notification No. Per (A-IV)-A(3)-3/84-II dated 28-05-2012, as required under Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].*

## PERSONNEL DEPARTMENT

### Appointment-IV

### NOTIFICATION

*Shimla-171002, the 28th May, 2012*

**No.Per (A-IV)-A(3)-3/84-II.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Administrative Service Rules, 1973, notified vide this Department's Notification No. 7-5/73-Dp-Apptt. Dated 15.03.1973 and published in Rajpatra (Extra Ordinary) dated 11.05.1973, namely:-

**1. Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Administrative Service (Second Amendment), Rules, 2012.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the RAJPATRA, Himachal Pradesh.

**2. Amendment in sub-rule (3) of Rule-11.**—In sub-rule (3) of Rule-11, of the Himachal Pradesh Administrative Service Rules, 1973, after the words "A Government servant who is holding substantive/officiating" but before the words "appointment in H.P. Government....." the word and sign "/contractual" shall be inserted.

By order,  
**Sudripta Roy,**  
Chief Secretary.

आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना

तारीख शिमला-171002, 28 मई, 2012

**संख्या: ई0एक्स0एन0-एफ(1)-1/2012(i).**—हिमाचल प्रदेश पथकर अधिनियम, 1975 (1975 का अधिनियम संख्यांक 9) से संलग्न अनुसूची-2 में संशोधन के प्रारूप को, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अनुसार, इनसे सम्भाव्य प्रभावित होने वाले व्यक्ति(व्यक्तियों) से आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करने के लिए, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना, तारीख 21 मार्च, 2012 को अधिसूचित किया गया था और जिसे ई-गजट हिमाचल प्रदेश में तारीख 21 मार्च, 2012 को प्रकाशित किया गया था ;

और इस निमित्त नियत अवधि के भीतर कोई भी आक्षेप/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है ।

अतः हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (2) के अधीन उनमें निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पूर्वोक्त अधिनियम से संलग्न अनुसूची-2 में निम्नलिखित संशोधन करती हैं, अर्थात् :-

## संशोधन

हिमाचल प्रदेश पथकर अधिनियम, 1975 की अनुसूची-2 में विद्यमान प्रविष्टि संख्या 8 के पश्चात् निम्नलिखित नई प्रविष्टि संख्या 9 जोड़ी जाएगी, अर्थात्:-

“ विधान सभा के पूर्व सदस्यों और केवल हिमाचल प्रदेश से निर्वाचित संसद के पूर्व सदस्यों के यान ”।”

आदेश द्वारा,  
हस्ता०/-  
प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान)।

-----  
*[Authoritative English text of this Department Notification No. EXN-F(1)-1/2012(i), dated 28th May, 2012 as required under clause(3) of Article 348 of the Constitution of India].*

**EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT****NOTIFICATION**

Shimla-171002, 28th May, 2012

**File No. EXN-F (1)-1/2012(i).**—Whereas the draft amendments in Schedule-II appended to the Himachal Pradesh Tolls Act, 1975 (Act No. 9 of 1975) were notified in accordance with the provisions of sub-section (2) of section 13 of the Act *ibid* for inviting objections and suggestions from the person(s) likely to be affected thereby, vide this Department Notification of even number, dated 21st March, 2012 and published in the e-Gazette, Himachal Pradesh on 21st March, 2012;

And whereas no objection(s)/suggestion(s) has been received within the stipulated period in this behalf.

Now, therefore, the Governor of Himachal Pradesh, in exercise of the powers vested in her under sub-section (2) of section 13 of the Act *ibid* is pleased to make the following amendments in Schedule-II appended to the Act *ibid* namely:-

**AMENDMENT**

In Schedule-II of the Himachal Pradesh Tolls Act, 1975, after existing entry No. 8, the following new entry number 9 shall be added, namely:-

“Vehicles of Ex-Members of Legislative Assembly and Ex-Members of Parliament elected from Himachal Pradesh only.”.

By order,  
Sd/-  
Principal Secretary (E&T).

**In the Court of Sub-Divisional Magistrate Kalpa at Reckong Peo, District Kinnaur (H. P.)**

Shrimati Anand Kumari w/o Shri Ramesh Kumar, resident of Village Kothi, Tehsil Kalpa, District Kinnaur (H. P.) . . Applicant.

*Versus*

General public

*Application u/s 13(3) of Births and Deaths Registration Act, 1969.*

Shrimati Anand Kumari w/o Shri Ramesh Kumar, resident of Village Kothi, Tehsil Kalpa, District Kinnaur (H. P.) has presented an application u/s 13 (3) of Births and Deaths Registration Act, 1969 supported by an affidavit stating therein that her daughter Riya was born on 14-7-2008, but due to inadvertence, she could not get the birth of her daughter registered to issue an order for registration of the same in the records of Gram Panchayat Kothi, Tehsil Kalpa, District Kinnaur.

Therefore, notice is hereby issued to the general public through this publication that if any body has any objection for the registration of birth of said Riya in the records of Gram Panchayat Kothi, she may prefer her written or verbal objection before the undersigned within a period of one month *i.e.* before 22-6-2012 failing which it will be presumed that no body has any objection for registration of birth Riya and order under the Act *ibid* will be issued to the Local Registrar of Gram Panchayat Kothi.

Issued under my hand and seal of the Court today on 21st day of May, 2012.

Seal.

Sd/-

*Sub-Divisional Magistrate Kalpa at  
Reckong Peo, District Kinnaur (H.P.).*

---

**In the Court of Shri Balbir Thakur (H.A.S.), Special Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Manali, District Kullu, Himachal Pradesh**

In the matter of :

Shri Tenzin Khenrab s/o Shri Chojor Palden Jamatsang, r/o House No. C-140, Palrabling Tibetan Settlement, P.O. Dobhi, *via* Katrain, District Kullu (H.P.) and Tamding Dolma, age 33 years d/o Shri Dechen Gyalpo, r/o 8301, Stanley Road Apartment 110, Bloomington, MN-55437 USA [at present residing at House No. C-140, Palrabling Tibetan Settlement, P.O. Dobhi *via* Katrain, District Kullu (H.P.)].

*Versus*

General Public

*An application for registration of marriage under Special Marriage Act, 1954.*

Whereas Shri Tenzin Khenrab s/o Shri Chojor Palden Jamatsang, r/o House No. C-140, Palrabling Tibetan Settlement, P.O. Dobhi *via* Katrain, District Kullu (H.P.) and Tamding Dolma, age 33 years d/o Shri Dechen Gyalpo, r/o 8301, Stanley Road Apartment 110, Bloomington,

MN-55437 USA [at present residing at House No. C-140, Palrabling Tibetan Settlement, P.O. Dobhi via Katrain, District Kullu (H.P.)] has presented an application on 7-5-2012 in this Court for the registration of marriage under Special Marriage Act, 1954. Hence this proclamation is hereby issued for the information of general public that if any person has any objection for the registration of the above marriage can appear in this Court on 6-6-2012 at 2.00 P.M. to object registration of above marriage personally or through an authorized agent failing which this marriage will be registered under this Act, 1954 accordingly.

Given under my hand and seal of the Court on 7th day of May, 2012.

Seal.

BALBIR THAKUR,  
Special Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,  
Manali, District Kullu, Himachal Pradesh.

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील जोगिन्द्रनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं०

तारीख मरजुआ

तारीख पेशी

2-6-2011

श्री कांशी राम पुत्र श्री कृष्ण कुमार, निवासी व डाकघर चल्हारग, तहसील जोगिन्द्रनगर, जिला मण्डी,  
हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

. . फरीक दोयम।

जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र।

श्री कांशी राम पुत्र श्री कृष्ण कुमार, निवासी व डाकघर चल्हारग तहसील जोगिन्द्रनगर, जिला मण्डी, हि० प्र० ने इस न्यायालय में आवेदन-पत्र गुजारा है कि उसके पुत्र का वास्तविक नाम अरमान चौधरी व जन्म तिथि दिनांक 15-4-2007 है, लेकिन प्रार्थी के पुत्र का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत चल्हारग के जन्म अभिलेख में दर्ज नहीं है, जिसे दर्ज करने के आदेश जारी किए जावें।

अतः इशतहार राजपत्र के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त मुकद्दमा बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 2-6-2012 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन इस न्यायालय में हाजिर होकर अपने उजर व एतराज पेश करे अन्यथा गैर-हाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में जाएगी।

आज दिनांक 2-5-2012 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
तहसील जोगिन्द्रनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।



ब अदालत श्री देवी चन्द ठाकुर, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील पधर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

उनवान मुकद्दमा : 37(2)

तारीख पेशी : 18-6-2012

श्री शुंका उर्फ सुख राम पुत्र श्री डुमणु, निवासी गांव सरवाला, डा0 गवाली, तहसील पधर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थी ।

बनाम

आम जनता

. . प्रत्यार्थी ।

आवेदन-पत्र.—जेर धारा 37(2) नाम दुरुस्ती बारा ।

श्री शुंका उर्फ सुख राम पुत्र श्री डुमणु, निवासी गांव सरवाला, डा0 गवाली, तहसील पधर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में आवेदन-पत्र गुजारा है कि उसका नाम मुहाल सरवाला के तमाम राजस्व अभिलेखों में शुंका दर्ज है, जबकि ग्राम पंचायत रिकार्ड गवाली के परिवार रजिस्टर में प्रार्थी का नाम सुख राम दर्ज है उक्त दोनों नामों का वह एक ही व्यक्ति है। दोनों उसके प्रचलित नाम हैं। प्रार्थी ने इस अदालत से प्रार्थना की है कि उसका नाम शुंका उर्फ सुख राम दर्ज किया जावे।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम को दुरुस्त करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन/वकालतन तारीख पेशी 18-6-2012 को सुबह 10.00 बजे हाजिर होकर अपना उजर पेश कर सकता है। बसूरत गैर-हाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दुरुस्ती के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

मोहर ।

देवी चन्द ठाकुर,  
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,  
पधर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं०	तारीख मरजुआ	तारीख पेशी
13	2-5-2012	23-6-2012

श्री सन्तोष कुमार पुत्र श्री धनी राम, निवासी संगनेहड, तहसील जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थी ।

बनाम

आम जनता

. . फरीकदोयम ।

जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र ।

श्री सन्तोष कुमार पुत्र श्री धनी राम, निवासी संगनेहड, तहसील जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में आवेदन-पत्र गुजारा है कि उसके पुत्र का वास्तविक नाम तरुण व जन्म तिथि दिनांक 24-3-2009 है लेकिन प्रार्थी के पुत्र का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत संगनेहड के जन्म अभिलेख में दर्ज नहीं है। जिसे दर्ज करने के आदेश जारी किए जावें।

अतः इशतहार राजपत्र के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त मुकद्दमा बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 23-6-2012 को प्रातः 10.00 बजे असातन या वकालतन इस न्यायालय में हाजिर होकर अपने उजर/एतराज पेश करे अन्यथा गैर-हाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में जाएगी।

आज दिनांक 2-5-2012 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-  
कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
तहसील जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

-----  
न्यायालय कार्यकारी दण्डाधिकारी, अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं० ऑफ 2012

श्रीमती निलिमा पंवर पत्नी श्री हुकम चन्द, निवासी गांव कड़याहं, डा० शालाघाट, तहसील अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

पंचायत कागजात/परिवार रजिस्टर में नाम की दुरुस्ती हेतु प्रार्थना-पत्र।

नोटिस बनाम आम जनता।

उपरोक्त प्रार्थना-पत्र प्रार्थिया श्रीमती निलिमा पंवर पत्नी श्री हुकम चन्द, निवासी गांव कड़याहं, डा० शालाघाट, तहसील अर्की ने इस न्यायालय में इस आशय के साथ प्रस्तुत किया है कि उसका नाम पंचायत अभिलेख/परिवार रजिस्टर में निलिमा कुमारी लिखा गया है जबकि उसका नाम स्कूल शिक्षा प्रमाण-पत्र आदि में निलिमा पंवर है, जोकि सही है। सत्यता की पुष्टि हेतु उसने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ अपना ब्यान हल्फिया, शिक्षा प्रमाण-पत्र व परिवार रजिस्टर की नकल संलग्न की है। प्रार्थिया चाहती है कि उसका नाम पंचायत अभिलेख/परिवार रजिस्टर में निलिमा पंवर किया जाए। इस सम्बन्ध में हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम की दुरुस्ती में किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह अपने एतराज इस न्यायालय में दिनांक 18-6-2012 को प्रस्तुत कर सकता है। उक्त तिथि के पश्चात् कोई भी उजर या एतराज काबले समायत नहीं होगा तथा पंचायत अभिलेख/परिवार रजिस्टर में नाम दुरुस्ती के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 23-5-2012 को हमारे हस्ताक्षर तथा मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-  
कार्यकारी दण्डाधिकारी,  
अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश।

न्यायालय सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं०/ 13बी ऑफ 2012

श्रीमती पूजा पत्नी स्व० श्री पवन कुमार, निवासी गांव झुंडला, डा० बलेरा, तहसील अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

राजस्व कागजात में नाम की दुरुस्ती हेतु प्रार्थना-पत्र।

नोटिस बनाम आम जनता।

उपरोक्त प्रार्थना-पत्र प्रार्थिया श्रीमती पूजा पत्नी स्व० श्री पवन कुमार, निवासी गांव झुंडला, डा० बलेरा, तहसील अर्की ने इस न्यायालय में इस आशय के साथ प्रस्तुत किया है उसका नाम राजस्व अभिलेख में पूजा लिखा गया है जबकि उसका असली नाम पार्वती था। सत्यता की पुष्टि हेतु उसने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ अपना ब्यान हलफिया, परिवार रजिस्टर पंचायत बलेरा तथा जमाबन्दी की नकल संलग्न की है। प्रार्थिया चाहती है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख में पार्वती उर्फ पूजा दर्ज किया जाए। इस सम्बन्ध में हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम की दुरुस्ती में किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह अपने एतराज इस न्यायालय में दिनांक 18-6-2012 को प्रस्तुत कर सकता है। उक्त तिथि के पश्चात् कोई भी उजर या एतराज काबले समायत नहीं होगा तथा पंचायत अभिलेख/परिवार रजिस्टर पंचायत बलेरा में नाम दुरुस्ती के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 23-5-2012 को हमारे हस्ताक्षर तथा मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,  
अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश।

न्यायालय सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं० 7/9 ऑफ 2012

सर्वश्री अभी राम, जय नन्द व नन्द लाल पुत्रगण श्री तुलसी राम, निवासी गांव पलानिया, तहसील अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

1. मेद राम, 2. दया राम, 3. लेख राम, 4. जया नन्द, 5. रामा नन्द पुत्रगण श्री बुधी राम, सभी निवासी गांव पलानिया, तहसील अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश।

इश्तहार बनाम प्रतिवादियान।

उपरोक्त प्रार्थना-पत्र प्रार्थीगण ने इस न्यायालय में इस आशय के साथ दिया है कि उनकी मुस्तरका भूमि खाता खतौनी नं० 15/38 से 41, मौजा पलानिया, तहसील अर्की में मुस्तरका चली आ रही है जिसकी वे

तकसीम कराना चाहते हैं। उपरोक्त दावा तकसीम में प्रतिवादी नं० 4 श्री जय नन्द व प्रतिवादी नं० 5 रामा नन्द को इस कार्यालय द्वारा घर के पते पर तथा बाद में पंजीकृत पावती भी भेजी लेकिन उन पर समनों की तामील नहीं हो पा रही है। लिहाजा इस न्यायालय को विश्वास हो गया है कि इन प्रतिवादियान पर तामील साधारण तरीके से की जानी असम्भव है। अतः इस इशतहार द्वारा उपरोक्त प्रतिवादी जय नन्द व रामा नन्द को सूचित किया जाता है कि यदि वे इस तकसीम में कोई आपत्ति प्रकट करते हैं या तकसीम में शामिल होना चाहते हैं तो दिनांक 18-6-2012 को इस न्यायालय में असालतन या वकालतन उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। उक्त तिथि के पश्चात् कोई उजर या एतराज काबले समायत नहीं होगा तथा तकसीम के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 16-5-2012 को हमारे हस्ताक्षर तथा मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,  
अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश।

## TOURISM DEPARTMENT

Cancellation Order of Hotel

*Shimla, the 19th March, 2012*

**No. 15-61/99-DTO-SML-1759-61.**—Whereas Hotel "Vainkunth" at The Mall Shimla, District Shimla, H.P. vide registration No. 15-61/99-DTO-SML-504 dated 5-7-1999 under the Himachal Pradesh Registration of Tourist Trade Act, 1988.

Whereas the proprietor of the above Hotel has failed to comply with the provisions of under section 30(g) & 30 (d) of The Himachal Pradesh Tourism Development and Registration Act, 2002.

Therefore, I, Surinder Justa, District Tourism Development Officer, Shimla, Division in exercise of the power vested in me under section 30 of The Himachal Pradesh Tourism Development and Registration Act, 2002, hereby order to remove the name of the aforesaid Hotel known as "Vainkunth" at The Mall Shimla, District Shimla, H.P. from the register and cancel its certificate of registration with immediate effect..

Seal.

SURINDER JUSTA,  
District Tourism Development Officer,  
U.S. Club Shimla, Himachal Pradesh.